

जन संपर्क एवं मीडिया समन्वयक कार्यालय

जामिया मिल्लिया इस्लामिया

प्रेस विज्ञप्ति

11 मार्च 2020

जामिया की डा. ज़ाकिर हुसैन लाइब्रेरी आज फिर से खुली

जामिया मिल्लिया इस्लामिया की डा. ज़ाकिर हुसैन लाइब्रेरी में 15 दिसंबर, 2019 को हुई तोड़-फोड़ की घटना के बाद, आज इसकी आइकानिक सेंट्रल लाइब्रेरी को छात्रों के लिए खोल दिया गया। लाइब्रेरी में बड़े पैमाने पर हुए रेनोवेशन और फेसलिफिटिंग काम के बाद इसे खोले जाने पर छात्रों ने बहुत खुशी जताई। रीडिंग हाल, रिसर्च फ्लोर, रेफरेंस और पीरिआॅडिकल सेक्शन और डिजिटल रिसोर्स सेंटर सहित लाइब्रेरी की सभी सेवाएं बहाल हो गई हैं। इसके खुलते ही छात्र बड़ी तादाद में अध्ययन के लिए आने लगे हैं।

टेक्सट बुक और रिसर्च सेक्शन मध्यरात्रि तक खुलेंगे। लाइब्रेरी की रौशनी व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया गया है और ज्यादा आरामदेह कुर्सियां मुहैया कराई गई हैं।

इंफार्मेशन और कम्युनिकेशन प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हुए आने वाले दिनों में इसकी यूजर्स सेवाओं का आधुनिकीकरण करने की योजना है।

कार्यकारी वीसी प्रो इलियास हुसैन ने लंबे समय बाद लाइब्रेरी के न्यू ब्लाक के खुलने पर संतोष जताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि ओल्ड ब्लाक भी जल्दी ही खुल जाएगा।

तकरीबन तीन तक महीने लाइब्रेरी के बंद रहने के समय का उपयोग, सेंट्रल लाइब्रेरी के स्टाफ के जरिए, जामिया की फैकल्टी और विभागों की लाइब्रेरियों का सुधार करने में किया गया। इस समय में लाइब्रेरी मैनेजमेंट साॅफ्टवेअर का भी आधुनिकीकरण किया गया।

अहमद अजीम

जनसंपर्क अधिकारी एवं मीडिया संयोजक